



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 1, 2003 (माघ 12 1924)
No. 5] NEW DELHI SATURDAY, FEBRUARY 1, 2003 (MAGHA 12, 1924)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग 1—खण्ड 2 [PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 2003

सं० ए-19014/2/1998-प्रशा०-I—केन्द्र में अपना कार्य-काल पूरा कर लेने के परिणामस्वरूप, श्रीमती सुनीता छिन्वा, भा० आ० से० (82) ने 15 जनवरी, 2003 के अपराह्न से मंत्रिमंडल सचिवालय में निदेशक का पदभार छोड़ दिया।

सुनील मिश्र, उप सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय में उप सचिव (स्वस्थाने) के रूप में उनकी नियुक्ति की तारीख से शुरू माना जायगी।

सुनील मिश्र, उप सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 2002

सं० ए-38012/5/प्रशा०-IV(वि०का०)—अत्यंत शोक के साथ अधिभुवित किया जाता है कि विधि और न्याय मंत्रालय में समूह 'क' अधिकारी श्री ए० सो० वर्मा, उ० विधि सलाहकार (भारतीय विधि सेवा) का दिनांक 23-12-2002 (अपराह्न) को निधन हो गया।

सं० ए-19013/1/2002-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, श्री फकीर चन्द, केन्द्रीय सचिवालय सेवा, जो इस समय उप सचिव (स्वस्थाने) हैं, को लोक-शिकायत निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय में 9 जनवरी, 2003 के पूर्वाह्न से 7 वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियमित रिक्ति पर उप सचिव नियुक्त करते हैं। 7 वर्ष की अवधि 18 अप्रैल, 2002 अर्थात्

वी० अनन्तकृष्णन, उप सचिव

दिनांक 1 जनवरी 2003

सं० ए-11011/2/99-प्रशा०-IV (वि० का०)--
मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09-12-2002 के
कार्यालय आपन सं० 31/2/2002-ईओ (एमएम-1) के
अनुसरण में, राष्ट्रपति, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य
विभा के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अवर सचिव, श्री
यशवन्त सिंह को दिनांक 31 दिसम्बर, 2002 के अपराह्न से
विधि एवं न्याय मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में
विधि कार्य विभाग के अधीन विधि आयोग में अवर सचिव के
पद पर नियुक्त करते हैं।

वी० अनन्तकृष्णन, उप सचिव

दिनांक 7 जनवरी 2003

सं० ए-32014/4/99-प्रशा०-IV (वि० का०)--तदर्थ
नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर, निम्नलिखित अधिकारियों
को दिनांक 16-12-2002 (अपराह्न) से सहायक पद पर
प्रत्यावर्तित किया जाता है :—

नाम	तैनाती का स्थान
सर्वश्री	
ए० के० घोष	विधि कार्य विभाग, शाखा सचि- वालय, मुम्बई।
कंवरजीत सिंह	विधि कार्य विभाग, मुख्य सचिवा- लय, नई दिल्ली।

2. राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय के केन्द्रीय
सचिवालय सेवा संवर्ग के उपर्युक्त सहायकों को दिनांक
18-12-2002 से छह महीने की अवधि के लिए अथवा ग्रेड
में रिक्तियां उपलब्ध रहने तक, जो भी पहले हो, उनके नामों
के समक्ष दर्शाए गए स्थानों में अनुभाग अधिकारी के पद पर
नियुक्त करते हैं।

3. इस तदर्थ नियुक्ति के आधार पर वे केन्द्रीय सचि-
वालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियमित नियुक्ति
का कोई दावा नहीं कर सकेंगे और न ही उनके द्वारा की गई
सेवा, ग्रेड में उनकी वरिष्ठता अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में
उनकी प्रोन्नति के लिए गिनी जाएगी।

वी० अनन्तकृष्णन, उप सचिव

दिनांक 8 जनवरी 2003

सं०-32013/2/98-प्रशा-IV (वि० का०) --इस
विभाग को दिनांक 28-06-2002 की समसंख्यक अधिसूचना
के क्रम में, सक्षम प्राधिकारी, गृह मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय
आशुलिपिक सेवा संवर्ग के नियमित प्रधान निजी सचिव
श्री ए० के० ठाकुर को विधि मंत्रालय में नियमित रिक्ति के
स्थान पर तदर्थ आधार पर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के

पद पर नियुक्ति को दिनांक 30-06-2003 तक की अवधि
के लिए या नियमित पदधारक उपलब्ध होने तक, जो भी पहले
हो, बढ़ाते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति के आधार पर वे वरिष्ठ प्रधान
निजी सचिव के ग्रेड में नियमित प्रोन्नति का कोई दावा
नहीं कर सकेंगे और न ही तदर्थ आधार पर उनके द्वारा
की गई यह सेवा, ग्रेड में उनकी वरिष्ठता अथवा अगले
उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए गिनी जाएगी।

वी० अनन्तकृष्णन, उप सचिव

दिनांक 10 जनवरी 2003

सं० ए-32014/1/95-प्रशा०-IV (वि० का०)--निजी
सचिव (केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ए'
और 'बी' सम्मिलित) के पद पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि
समाप्त होने पर, निम्नलिखित निजी सचिवों को दिनांक
04-01-2003 के अपराह्न से विधि और न्याय मंत्रालय के
केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में वैयक्तिक
सहायक के पद पर प्रत्यावर्तित किया जाता है :—

1. श्रीमती एस० गिरिजा मुख्य सचिवालय, विधि कार्य
विभाग
2. श्री रघुबीर सिंह --यथोपरि--

2. राष्ट्रपति, उपर्युक्त अधिकारियों को तदर्थ आधार पर
दिनांक 07-01-2003 से छह महीने की अवधि के लिए विधि
और न्याय मंत्रालय में निजी सचिव (केन्द्रीय सचिवालय
आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ए' और 'बी' सम्मिलित) के पद
पर नियुक्त करते हैं।

3. इस तदर्थ नियुक्ति के आधार पर वे केन्द्रीय सचिवालय
आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव के ग्रेड में नियमित
नियुक्ति का कोई दावा नहीं कर सकेंगे और न ही उनकी इस
सेवा को ग्रेड में वरिष्ठता अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति
के लिए गिना जाएगा।

वी० अनन्तकृष्णन, उप सचिव

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी 2003

सं० के० 13020/4/2002-यू०एस०-II--जम्मू और
कश्मीर के संविधान की धारा 100-क की उप-धारा (1) द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, (1) श्री प्रमोद
कोहली और (2) श्री यज्ञ पाल नरगोत्रा को, उसी बरोयता
क्रम में, अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रत्येक
को दो वर्ष की अवधि के लिए जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय
के अपर न्यायाधीश के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

दुर्गादास गुप्ता, संयुक्त सचिव

दिनांक 16 जनवरी 2003

सं० के०-13030/3/2002-यू० एस०-II-भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, श्री लालचन्द भादू को अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

दुर्गा दास गुप्ता, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 20 दिसम्बर 2002

सं० के 13012/1/2002-यू० एस० II-भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, (1) श्री प्रकाश कृष्ण, (2) श्री राजेश कुमार, (3) श्री सिवगत उल्लाह खां, (4) श्री अमर नाथ वर्मा, (5) श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, (6) श्री अब्दुल मन्तेन और (7) श्री विमलेश कुमार शुक्ला को उसी वरीयता क्रम में, अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, (1) श्री घनश्याम दास, (2) श्री देवेन्द्र प्रसाद गुप्ता, (3) श्री राधे श्याम त्रिपाठी, (4) श्री मुक्तेश्वर प्रसाद, (5) श्री उमेश्वर पाण्डेय और (6) श्री कैलाश नाथ ओझा को उसी वरीयता क्रम में अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

के० गुट्टू, निदेशक (न्याय)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 जनवरी 2003

सं० I-14012/18/97-आई०पी०एस० IV-इस मंत्रालय की दिनांक 20 अप्रैल, 1998 की समसंख्यक अधिसूचना में, सिविल सेवा परीक्षा, 1996 के आधार पर चुने गए भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित उम्मीदवारों की नियुक्ति 'अनंतिम' की गई है :—

क्र०सं०	उम्मीदवार का नाम	कांडर	टिप्पणियाँ
1	2	3	4
	सर्व/श्री		
1.	देवेन्द्र सिंह चौहान	आन्ध्र प्रदेश	
2.	संजय कुमार जैन	आन्ध्र प्रदेश	
3.	विजय कुमार	आन्ध्र प्रदेश	
4.	यरम नागी रेड्डी	आन्ध्र प्रदेश	

1	2	3
5.	पुनीत अरोड़ा	ए०जी०एम०यू०
6.	बिनोद कुमार	असम-मेघालय
7.	जल्ली अजय कुमार	असम-मेघालय
8.	सुरेन्द्र सिंह यादव	असम-मेघालय
9.	अजिताभ कुमार	बिहार
10.	के० सी० सुरेन्द्र बाबू	बिहार
11.	जयदीप सिंह	छत्तीसगढ़
12.	अनुपम सिंह गहलोत	गुजरात
13.	खुशीद अहमद	गुजरात
14.	संजय कुमार	हरियाणा
15.	आनंद प्रताप सिंह	हिमाचल प्रदेश
16.	पोरम लक्ष्मीपति	हिमाचल प्रदेश
17.	आलोक कुमार	जम्मू-कश्मीर
18.	गरीब दास	जम्मू-कश्मीर
19.	आशीश बस्तरा	झारखंड
20.	टी० कंडासामी	झारखंड
21.	एम० नंजुनदासनामी	कर्नाटक
22.	एस० मुरुगन	कर्नाटक
23.	बलराम कुमार उपाध्याय	केरल
24.	गुगुलीयू लक्ष्मण	केरल
25.	मकरंद दियोसकर	मध्य प्रदेश
26.	सोलोमोन यश कुमार मिज	मध्य प्रदेश
27.	उमेश जोग	मध्य प्रदेश
28.	दातला श्रीनिवास वर्मा	मध्य प्रदेश
29.	अब्दुर रहमान	महाराष्ट्र
30.	मेकला सुरेश कुमार	महाराष्ट्र
31.	सौरभ त्रिपाठी	मणिपुर-त्रिपुरा
32.	जनार्दन सिंह	नागालैंड
33.	अशीत कुमार पाणिग्रहा	उड़ीसा
34.	पवन कुमार राय	पंजाब
35.	एस० सेनगोशिर	राजस्थान
36.	विजय कुमार सिंह	राजस्थान
37.	विशाल बंसल	राजस्थान
38.	सुश्री करुणा केशरवाणी	राजस्थान/निघन हो चुका है
39.	महेश्वर दयाल	तमिलनाडु

40. अयूष मणि तिवारी	तमिलनाडु
41. अमित कुमार सिन्हा	उत्तरांचल
42. संजय कुमार गुंज	उत्तरांचल
43. वी० मुरुगेशन	उत्तरांचल
44. नवीन अरोड़ा	उत्तर प्रदेश
45. नीलेश कुमार	उत्तर प्रदेश
46. मोहित अग्रवाल	उत्तर प्रदेश
47. रघुवीर लाल	उत्तर प्रदेश
48. गजो अनिल श्रीनिवास	पश्चिम बंगाल
49. के० जयरमन	पश्चिम बंगाल
50. डा० आर० राजशेखरन	पश्चिम बंगाल
51. सुप्रतिम सरकार	पश्चिम बंगाल

2. भारतीय पुलिस सेवा के उल्लिखित अधिकारियों को नियुक्ति एतद्वारा बिना किसी शर्त के अधीन की जाती है।

जे० वी० कौशिक, डेस्क अधिकारी

कामिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कामिक और प्रशिक्षण विभाग)

प्रशिक्षण प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक 13 जनवरी 2003

सं० 13019/13/2002-अकादमी (डेस्क)---अपने मूल संवर्ग में समयपूर्व प्रत्यावर्तन के परिणामस्वरूप श्रीमती गीता मिश्रा, आई० आर० पी० एस० (83) ने दिसम्बर 16, 2002 (अपराह्न) से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में उग्र निदेशक (वरिष्ठ) के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

मनीषा भटनागर, डेस्क अधिकारी

दिनांक 17 जनवरी 2003

सं० 13019/5/2000-अकादमी (डेस्क)---अपने मूल संवर्ग में समयपूर्व प्रत्यावर्तन के परिणामस्वरूप श्री अजय चौधरी, भा० प्र० से (केरल : 77) ने 28 दिसम्बर, 2002 (अपराह्न) से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में लोक प्रशासन के प्रोफेसर के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

मनीषा भटनागर, डेस्क अधिकारी

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 नवम्बर 2002

सं० 47/पीए-II/2002---भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' के आशुलिपिक संवर्ग में प्रधान निजी सचिव के स्थाई पद धारक निम्नलिखित अधिकारियों को 12000-375-16500 रुपये के वेतनमान में भारतीय विदेश सेवा, शाखा

'ख' के आशुलिपिक संवर्ग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव समूह 'क' के उन्नत पद पर तदर्थ रूप से स्थानापन्न पदोन्नति के लिए अनुमोदित कर दिया गया है। निम्नलिखित प्रधान निजी सचिवों को तदर्थ नियुक्ति की वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पदों के प्रति 30 सितम्बर, 2002 से 3 महीने की अवधि के लिए या जब तक नियमित पदोन्नतियां नहीं हो जाती हैं, इनमें से जो भी पहले हो, उन्हें की गई शर्तों पर बढ़ाने का निर्णय लिया गया है :—

नाम	मिशन जहां तैनात हैं	वह तारीख जिससे तदर्थ वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में स्थानापन्न तौर पर हैं
-----	---------------------	---

सर्वश्री		
दलीप सिंह	भारत का राजदूतावास, अन्तानानारिवो	7-12-2000
के०एल० सचदेव	मुख्यालय	7-12-2000
आर० सी० जोशी	भारत का स्थायी मिशन, न्यूयार्क	7-12-2000
श्रीमती चन्दर गिलानी	भारत का राजदूतावास, वाशिंगटन	7-12-2000
बी० एस० मुन्हा	भारत का राजदूतावास, कराकस	7-12-2000
आर० एस० अरोड़ा	मुख्यालय	7-12-2000
एस० के० नीगिया	सीजीआई, न्यूयार्क	7-12-2000
जे० के० खुराना	मुख्यालय	7-12-2000
बलवीर चन्द शर्मा	भारत का राजदूतावास, ब्रुसेल्स	7-12-2000

संजीव रंजन, उप सचिव (एफ एस पी)

दिनांक 27 नवम्बर 2002

सं० 48/पी ए II/2002---दिनांक 17 अक्टूबर 2002 की अधिसूचना सं० 36/पी ए II/2002 के क्रम संख्या 1 पर श्री विमल सैगल के नाम को श्री विमल सहगल के बजाय श्री विमल सैगल पढ़ा जाए।

संजीव रंजन, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 14 जनवरी 2003

सं० डी०-III/480/सी एफ-27/2001---भारत के राष्ट्रपति ने सुश्री दयाल कौर की मुम्बई में सिगापुर गणराज्य की कौंसल के रूप में नियुक्ति की तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

सुश्री दयाल कौर के कौंसली क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र, गुजरात तथा गोवा राज्य होंगे।

प्रभात कुमार, प्रोतोकोल, उप-प्रमुख (एफ)

वित्त और कंपनी मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसम्बर 2002

सं० 99 (फा० सं० ए०-19011/24/2002 प्रशा० I)---
राष्ट्रपति, भा०सी०शु० एवं के०उ०शु०से० के अधिकारी श्री
आर०के० चन्द्रा (1967) को दिनांक 1 नवम्बर, 2002
(पूर्वाह्न) से और अगला आदेश होने तक केन्द्रीय उत्पाद
शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के सदस्य के रूप में और भारत
सरकार, वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय, राजस्व विभाग में
पदेन अपर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

प्रीति पंत, अवर सचिव

सं० 100 : (फा० सं० ए० 19011/25/2002-
प्रशा०-I)---राष्ट्रपति, भा०सी०शु० एवं के०उ०शु०से० के अधि-
कारी डा० एम० जी० वेणुगोपालन को दिनांक 16 दिसम्बर,
2002 (अपराह्न) से अथवा अगला आदेश होने तक केन्द्रीय
उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के सदस्य के रूप में और
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में पदेन अपर
सचिव नियुक्त करते हैं।

प्रीति पंत, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 2002

वर्ष 2002 की सं० : (फा० सं० ए०-32014/2/2002-
प्रशा०-1क)---संवर्ग प्रशासन अनुभाग के दिनांक 5-12-2002
के का०शा० सं० 12024/1/2002-सी०ए०एस० के अनुसरण में
राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नलिखित
व्यक्तिक सहायकों को वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में
6500-10500/- रु० के वेतनमान में दिनांक 11-12-2002
(पूर्वाह्न) से छः मास की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर
निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं० नाम श्री/सर्वश्री/सुश्री

1. विनोद कुमार
2. निरंजन सिंह वर्मा
3. एन० एस० शर्मा

2. उपर्युक्त कार्मिकों की तदर्थ प्रोन्नति के०स०आ०से० के
निजी सचिव के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए उन्हें कोई
हक प्रदान नहीं करेगी और उनके द्वारा तदर्थ आधार पर की
गई सेवा अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए
ग्रेड में वरीयता की पात्रता के लिए नहीं गिनी जाएगी
और तदर्थ प्रोन्नति को किसी समय रद्द करने तथा जिस पद से
उन्हें प्रोन्नत किया गया उस पद पर कार्मिक को वापिस भेजने
का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित है।

आर० के० मल्होत्रा, अवर सचिव

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2003

आयकर संस्थापना

सं० 1 फा० सं० ए०-32012/7/2001/प्रशा०-6-
इस विभाग की दिनांक 1-2-2002 की अधिसूचना
सं० 2 (फा० सं० ए०-32012/7/2001-प्रशा०-6)
का अतिक्रमण करते हुए श्री सुमन गुप्त, सहायक आयकर
आयुक्त (90509), दिल्ली को एतद्वारा दिनांक 1 अक्टूबर
1994 से 10000-325-15200/ रुपये के वेतनमान में
नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप में उप सचिव के रूप में
नियुक्त किया जाता है।

पी० सी० भट्ट, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं० एफ० 2/15/2001-सिवका-I---राष्ट्रपति, भारत
सरकार टकसाल, हैदराबाद में उप मुख्य पारखी श्री एम० जे०
रे की मुख्य पारखी के पद पर 12000-375-16500/- रु० के
वेतनमान में दिनांक 30-6-2003 तक अथवा पद के नियमित
आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर
नियुक्ति को सहर्ष आगे बढ़ाते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से उपरोक्त अधिकारी को नियमित
नियुक्ति अथवा वरिष्ठता का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं
होगा।

अपराजिता चौधरी, अवर सचिव

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 2002

फा० सं० 18/2/95-डीआरटी---अधिवसिता की आयु
पूरी करने के परिणामस्वरूप ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर
में पीठासीन अधिकारी श्री सी० के० सोलंकी दिनांक
13-1-2003 (अपराह्न) को सेवानिवृत्त होंगे। बैंकों एवं
वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993
की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए ऋण वसूली अधिकरण, इलाहाबाद के पीठासीन
अधिकारी श्री ए० एस० चौधरी को दिनांक 13-1-2003
(अपराह्न) से अतिरिक्त पारिश्रमिक दिए बिना तथा अगले
आदेश होने तक अपने कार्यभार के साथ डीआरटी, जबलपुर
के पीठासीन अधिकारी के कार्यभार को भी देखने के लिए
प्राधिकृत किया जाता है।

डी० पी० भारद्वाज, अवर सचिव

दिनांक 14 जनवरी 2003

फा० सं० 21/5/00-डी आर टी--राष्ट्रपति, ऋण वसूली, अधिकरण, अहमदाबाद के कार्यालय में 10,000-15200 रुपए के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त वसूली अधिकारी, श्री जगदीश स्वरूप की प्रतिनियुक्ति अवधि में 9-2-2003 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, वृद्धि करते हैं।

डी० पी० भारद्वाज, अवर सचिव

सं० ए-19011/214/2000-स्था०--राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी०एस०एस०) के अधिकारी, श्री पी०एम० सिराजुद्दीन, जो इस समय आर्थिक कार्य विभाग के बैंकिंग एवं बीमा प्रभाग में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं, के पद को व्यक्तिगत तौर पर उनके लिए अपग्रेड करके 8 जनवरी, 2003 के पूर्वाह्न से दिनांक 31-12-2004 को उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उन्हें 18400-22400/- रुपए के वेतनमान में बैंकिंग एवं बीमा प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त एवं कंपनो कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी० पी० भारद्वाज, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 2003

सं० ए-12025/1/2001-ई० जी०--राष्ट्रपति, भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा के निम्नलिखित कनिष्ठ टाइम स्केल अधिकारियों को उनके नाम के सामने दी गई तारीखों से नियुक्त करते हैं :--

क्र० सं०	नाम	से प्रभावी
----------	-----	------------

सर्वश्री

1.	सुश्री रश्मि जैन	21-04-1997
2.	के विजय कुमारन	-वही-
3.	डी० के० शेखर	-वही-
4.	एस० दिवाकरण पिल्लई	-वही-
5.	अखिलेश कुमार कौशिक	-वही-
6.	पूरन कुमार वर्मा	-वही-
7.	अनिल कुमार सोबती	-वही-
8.	प्रभाकर दास महाले	-वही-
9.	सुश्री जी० सुधारमणे	-वही-
10.	पी० के० मोंगा	-वही-
11.	राकेश गुप्ता	-वही-

क्र० सं०	नाम	से प्रभावी
12.	ई० श्रीनिवासन	21-04-1997
13.	राज कुमार अग्रवाल	-वही-
14.	एस० वासुदेवन	-वही-
15.	सुश्री रीना गर्ग	-वही-
16.	एस० सुरेश कुमार	-वही-
17.	वृज मोहन	-वही-
18.	एन० कल्याणकरन	-वही-
19.	हरपाल सिंह	-वही-
20.	चन्द्र मोहन	-वही-
21.	पी० एन० शेषाद्रि	-वही-
22.	देवेन्द्र कुमार गुप्ता	-वही-
23.	सुश्री एम० वी० राजेश्वरी	-वही-
24.	पी० पी० मोहनन	-वही-
25.	टी० एस० शिवाप्पा	-वही-
26.	सुश्री श्रीलक्ष्मणकर जोग	-वही-
27.	अरविन्द दास	-वही-
28.	जीता राम रिनका	-वही-
29.	एस० राघवन	-वही-
30.	केशव चरन बेहरा	-वही-
31.	एन० शिवशंकर पिल्लई	-वही-
32.	देवेन्द्र कुमार	-वही-
33.	डब्ल्यू० जेबन्सन अरुलसिंह	-वही-
34.	आदित्य कुमार सक्सेना	-वही-
35.	टेरेसा जोसफ	-वही-
36.	करन सिंह	-वही-
37.	प्रकाश अम्बादास रत्नापारखी	-वही-
38.	द्वारका प्रसाद यादव	-वही-
39.	सूर्य प्रकाश मंगल	-वही-
40.	वी० के० गिरिजाबल्लभन	-वही-
41.	पी० वी० रवि	-वही-
42.	चन्द्र सेन शर्मा	-वही-
43.	राजेश कुमार भाट्टी	-वही-
44.	अश्वनी कुमार मिश्रा	-वही-
45.	सुश्री पी० राधा देवी	-वही-
46.	अन्जन कुमार ऐच्	-वही-

2. सभी 46 अधिकारी भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन कार्यालय में कार्यरत हैं।

महेन्द्र कुमार, उप सचिव

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2003

सं० 2/2/2000/एच आर डी-1/7384-इस महानिदेशालय की विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 16-12-2002 को हुई बैठक की सिफारिशों तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से विदेश व्यापार महानिदेशालय संगठन में अनुभाग प्रमुख/वरिष्ठ अनुसंधान के पद पर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को इस महानिदेशालय के कार्यालय आदेश सं० 03/2003, दिनांक 15-1-2003, में उल्लिखित उनके तैनाती के स्थान पर पद ग्रहण की तारीख से 6500-200-10500 रु० के वेतनमान में विदेश व्यापार विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति की जाती है :-

क्रम सं०	अधिकारी का नाम
1.	श्री वाई० एन० शर्मा
2.	श्री के० एम० मोटवानी
3.	श्री सुशील कुमार सिकंदर
4.	श्रीमती अजेन्टीना थावा
5.	श्री फिन्द कोरदार शेबांग
6.	श्री बिष्णुराम खक्कारी
7.	श्रीमती सुनिती मण्डल
8.	श्री पुलिन कृष्ण जोहार
9.	श्री निरान्दा देवरी
10.	श्रीमती बसन्ती दास
11.	श्री अमिश कुमार वास्त
12.	श्रीमती झरना घोष

ए० के० एम० चाकणकर,
संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2003

सं० ए०-12027/5/94-विस्फो- राष्ट्रपति, विस्फोटक विभाग में संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक श्री आर० एच० भालेकर को 26 दिसम्बर, 2002 से और छः महीने की अवधि के लिए अथवा उच्चतम न्यायालय में एस०एल०पी० के निपटान होने तक, जो भी पहले हो, 18,400-22,400 रु० के वेतनमान में उसी विभाग में तदर्थ आधार पर स्थापनापन्न रूप में मुख्य विस्फोटक नियंत्रक करते हैं।

उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर की गई है और इससे उन्हें पद पर लगातार बने रहने अथवा भविष्य में उच्च ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। सरकार के पास बिना कोई कारण बताये अथवा नोटिस इत्यादि दिए बिना ही उक्त तदर्थ नियुक्ति को कभी भी समाप्त कर देने का अधिकार सुरक्षित है। उपर्युक्त नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में संबित एस०एल०पी० सं० 8828/2000 (भारत बंध बनाम श्री आर० एच० भालेकर) के फैसले और अन्य न्यायिक आदेशों के अधीन होगी।

संजय गर्ग, अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 दिसम्बर 2002

सं० ए०-12011/27/98-स्थापना-राष्ट्रपति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सुश्री स्वदेश कुमारी अग्रवाल की सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष और सूचना अधिकारी के रूप में 6500-200-10500 रुपए के वेतनमान में तदर्थ नियुक्ति की अवधि को 1-11-2002 से 28-2-2003 तक या अगले आदेशों तक बढ़ाते हैं।

एस० एस० केमवाल, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो रसायन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 2003

सं० ए०-32011/3/2002-स्था-राष्ट्रपति, इस विभाग के नियमित और औद्योगिक सलाहकार, श्री जसवीर सिंह को रु० 16,400-450-20,000 के वेतनमान पर 1 अप्रैल, 2002 से आगामी आदेश जारी होने तक औद्योगिक सलाहकार नियुक्त करते हैं।

आर० पी० बशिष्ठ, अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी 2003

सं० 11(40)/2002-स्थापना-मंत्रालय के दिनांक शून्य को अधिसूचना सं० 11(12)/2002-स्थापना के क्रम में, राष्ट्रपति, इस्पात मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में निम्नलिखित स्थायी सहायकों को नियुक्ति की अवधि को इसी सेवा और संवर्ग में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रत्येक के सामने दर्शाई गई अवधि तक या नियमित

अनुभाग अधिकारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है :—

1. श्री शिवनाथ सिंह 1-1-2003 से 31-3-2003 तक
2. श्री आर एस राव 1-1-2003 से 31-3-2003 तक
3. श्री मनोज कुमार सिंह 7-3-2003 से 31-3-2003 तक

2. इस तदर्थ आधार पर की गई नियुक्ति द्वारा उपरोक्त अधिकारियों को नियमित पदोन्नति हेतु बरिष्ठता के दावे का अधिकार नहीं होगा।

बाबू राम, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं० ए०-12015/2/2000-स्था०—राष्ट्रपति, वर्ष 1998 की चवन सूची में शामिल श्री एम० के० भारद्वाज को 10000-15,200 रुपये के वेतनमान में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में दिनांक 10 दिसम्बर, 2002 के पूर्वाह्न से नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एम० एल० मल्होत्रा, वर सचिव

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2003

फाईल सं० ए०-11011/4/2002-प्रशा०—राष्ट्रपति, श्रीमती इन्द्राणी कौशल (आई ई एस : 95) को 2 जनवरी, 2003 के अराह्ल से अगले आदेशों तक उपभोक्ता मामले विभाग में 10000-325-15200 रुपये के वेतनमान में उप-निदेशक (ई आई आर) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस० के० नायक, अवर सचिव

फा० सं० ए०-12011/33/2002-प्रशा०—राष्ट्रपति, श्री वजाहत हबीबुल्लाह, आई०ए०एस० (जम्मू व कश्मीर : 68) को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के निदेशक के पद का कार्यभार छोड़ने पर 15 जनवरी, 2003 के पूर्वाह्न से 26060 रुपये (नियत) के वेतनमान में उपभोक्ता मामले विभाग में सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस० के० नायक, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 8 जनवरी 2003

सं० ए०-11013/1/2002-प्रशा०-1 (ए)—सक्षम प्राधिकारी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सी० एस० एस० संवर्ग के निम्नलिखित 3 (तीन) स्थायी व्यक्ति क

सहायकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में 6500-200-10500 रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर विशेष कार्य अधिकारी के पद पर 8-01-2003 से छह महीने की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं० नाम

1. श्री टी० पी० एस० सहरावत
2. श्रीमती मधु सूर्या
3. श्री जयरामन के०

सुभाष चंद्र चावला, उप सचिव

दिनांक 10 जनवरी 2003

सं० ए०-01/15/2001-प्रशा०-1 (ए)—राष्ट्रपति, निम्नलिखित वैज्ञानिक "एफ" को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में नमनीय पूरक योजना के अंतर्गत उनकी स्वस्थाने पदोन्नति पर 18,400-500-22,400 रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक "जी" के रूप में 1 जनवरी, 2003 के पूर्वाह्न से तथा आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

1. श्री आई० बी० सिंह
2. श्रीमती सी० पी० सहगल

सुभाष चंद्र, उप सचिव

दिनांक 13 जनवरी 2003

सं० ए०-32013/03/2002-प्रशा०-1 (ए)—सक्षम प्राधिकारी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के कनिष्ठ तकनीकी सहायक, श्री रविन्द्र को 6500-200-10500 रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर कनिष्ठ विश्लेषक (तकनीकी) के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में 10-01-2003 से तथा आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सुभाष चंद्र चावला, उप सचिव

बायोटेक्नोलॉजी विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं० ए०-12011/01/96-स्था०-II—इस विभाग की दिनांक 27 फरवरी, 2002 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में राष्ट्रपति द्वारा डा० (श्रीमती) मंजु शर्मा की सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के रूप में नियुक्ति की अवधि को 63 वर्ष की आयु से आगे और एक वर्ष के लिए अर्थात् 29-2-2004 तक अथवा अगले आदेश होने तक, इसमें जो भी पहले हो, बढ़ाया जा रहा है।

एस० सी० अग्रवाल, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 दिसम्बर 2002

सं० एफ-17013/13/2000-भा० व० सेवा-II-भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 7 के उपविनियम (3) में निहित उपबन्धों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय वन सेवा के नागालैण्ड संवर्ग को पदोन्नति रिक्ति को भरने के लिए अपनी 6 सितम्बर, 2002 को हुई चयन समिति को बंठक में वर्ष, 2002 के लिए चयन सूचों का 23 दिसम्बर, 2002 को अनुमोदन कर दिया है जिसमें श्री किर्लोती शोही (अनुसूचित जाति) (जन्म तिथि 16-9-1953) का नाम शामिल है।

अशोक कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 दिसम्बर 2002

सं० ए-32013/2/97-स्थ०-I-राष्ट्रपति ने श्री आशोक कुमार, सहायक का नाम बरिष्ठता कोटे के आधार पर वर्ष 1995 को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित होने के परिणामस्वरूप और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इलाहाबाद से (प्रतिनियुक्ति से) प्रभावितता पर इत मंत्रालय में डाटा हेतु रिपोर्ट करने पर, उन्हें दिनांक 18-11-2002 के पूर्वाह्न से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्त किया है।

डा० अजित कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 8 जनवरी 2003

सं० सी० 14011/7/2000 सी० एच० ए०-I-डा० आर० आर० के० कक्कड़ ने अनेत्यागत को संवर्ग के परिणामस्वरूप दिनांक 13-5-2002 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अग्रत केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पदभार छोड़ दिया, ऐसा माना जाता है।

दिनांक 8-7-97 से आगे की अवधि कार्य दिवसों के रूप में मानी गई है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 14 जनवरी 2003

सं० ए-12025/144/99-सी० एच० ए०-I-राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० अशोक कुमार शर्मा को 8-5-2002 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13,500 स्तर के वेतनागत में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० अशोक कुमार शर्मा को केन्द्रीय सरकार 2-432 GI/2002

स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अग्रत उसी तारीख से चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं० ए-12025/8/2001-सी० एच० ए०-I-राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० विजय कुमार मिश्रा को 12-2-2002 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13,500 स्तर के वेतनागत में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० विजय कुमार मिश्रा को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मेरठ के अग्रत उसी तारीख से चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 16 जनवरी 2003

सं० ए-12025/35/99-सी० एच० ए०-I-डा० नरेन्द्र कुमार अग्रवाल ने अपना इस्तीफा मंजूर होने के परिणामस्वरूप 6-3-2002 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली के अग्रत केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया है ऐसा माना जाता है।

2. दिनांक 28-12-2001 से 6-3-2002 (पूर्वाह्न) की अवधि अवकाश दिवसों के रूप में मानी गई है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं० ए० 39012/7/99-सी० एच० ए०-I-डा० पंकज कुमार, बरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने अपना इस्तीफा मंजूर होने के परिणामस्वरूप 12-12-2000 के पूर्वाह्न से राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अग्रत केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के बरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया है ऐसा माना जाता है।

2 दिनांक 10-6-1997 से 12-12-2000 (पूर्वाह्न) की अवधि अवकाश दिवसों के रूप में मानी गई है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

(भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमोपैथी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर 2002

सं० जेड० 28015/1/97-भा० चि० प० (स्था०-II) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12-08002 और 30-10-2002 के० का ज्ञा सं० 4/13/2002 सी० ए० आई० के० त० वर्ष 1992 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अवर सचिव) ग्रेड I की प्रवर सूची में श्री लाल सिंह जो वर्ष 1992 की प्रवर सूची के क्रम सं० 103-ए प

(सी० एस० एल० सं० 3554) है, का नाम जोड़े जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति उन्हें 01-07-02 से उसी सेवा (अवर सचिव) के ग्रेड I में नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा का अधिकारी नियुक्त करते हैं।

पी० एन० सक्सेना, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 जनवरी 2003

सं० 27-2502/2002-स्था०-1--राष्ट्रपति कृषि एवं सहकारिता विभाग के विशेष सचिव तथा केन्द्रीय राहत आयुक्त श्री मोहन कान्हा, भा० प्र० से० (आ० प्र० : 68) को 1 जनवरी 2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक के लिए इसी विभाग में सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

सरस्वती प्रसाद, निदेशक (कामिक)

नई दिल्ली, दिनांक 14 जनवरी 2003

सं० 27-2509/2003-स्था-1--राष्ट्रपति, श्री सुधीर मन्कड़, भा० प्र० से० (गुजरात : 71) को 1 जनवरी, 2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक 22,400-525-24,500/- रु० के वेतनमान में कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

के० डी० उप्रेती, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 14 जनवरी 2003

फा० सं० 19-309/91-विस्तार--राष्ट्रपति, विस्तार निदेशालय में क्षेत्रीय गृह अर्थशास्त्री डा० (श्रीमती) तारा थॉमस को दिनांक 11 दिसम्बर 2002 के पूर्वाह्न से, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेन्शन) नियमावली के नियम 48(1) (क) के साथ पठित मूल नियमावली के नियम 56 (के) अन्तर्गत सरकारी सेवा से स्वेच्छिक सेवा-निवृत्ति की अनुमति प्रदान करते हैं।

रानी तलरजा, अवर सचिव

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 31 दिसम्बर, 2002

सं० ए-19011/11/2001-स्थापना--डा० पंजाब सिंह, सचिव, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग (डेयर)/महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर 31 दिसम्बर, 2002 अपराह्न से सेवानिवृत्त किया जाता है।

एम० सी० चांद, अवर सचिव

दिनांक 10 जनवरी 2003

सं० 3-2/2002-स्थापना--राष्ट्रपति, डा० मंगलादाय, उपमहानिदेशक (फसल विज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सचिव, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग (डेयर) एवं महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा० कृ० अ० प०) के पद पर 26000 रुपए (निर्धारित) प्रतिमाह के वेतनमान में 9 जनवरी, 2003 अपराह्न से अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं।

एम० सी० चांद, अवर सचिव

संसार और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 13 जनवरी 2003

सं० 2(9)/2001-का०-I--राष्ट्रपति जे० ने श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, भारतीय पुलिस सेवा (एजीएमयू : 86) को प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक का कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 18400-450-20000/- रुपए के वेतनमान में दिनांक 30 दिसम्बर, 2002 के पूर्वाह्न से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर सहायक नियंत्रक (अन्वेषण) नियुक्त किया है।

आर० के० मनचन्दा, उप निदेशक

दूरसंचार विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 31 दिसम्बर 2002

सं० 400-52/2002-एपटीजी-II--तमिलनाडू दूर-संचार सक्षम में महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत तार परीयाट सेवा समूह "क" के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के तदर्थ अधिकारी श्री एम० रामास्वामी (स्टाफ सं० 20026) का दिनांक 30-10-2002 को देहांत हो गया।

डा० विलेट बारला, अवर सचिव

डाक विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 9 जनवरी 2003

सं० 1-7/1998-एस पी जी--श्री एस० बी० भट्टाचार्य, (भारतीय डाक सेवा-1966), सदस्य (प्रचालन) डाक विभाग, नई दिल्ली अधिविज्ञान पर सरकारी सेवा से 31-12-2002 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आर० एस० आदव
सहायक महानिदेशक (एस पी जी)

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2003

सां. कां. सं. ए-60011/003/2002-बी.ई.०—राष्ट्र-पति, श्री सत्येन्द्र सिंह, संयुक्त महानिदेशक, नागर विमानन को दिनांक 14 जनवरी 2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक 22,400-525-24,500/- रु० के वेतनमान में नागर विमानन महानिदेशालय में नियमित आधार पर महानिदेशक, नागर विमानन नियुक्त करते हैं।

कमल किशोर पन्त, अवर सचिव

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 सितम्बर 2002

सं. ए-38020/4/2002-स्था.०-II—सेवा निवृत्ति की आयु पूरी होने के परिणामस्वरूप, श्री जी० एस० सी० कर्मा, अधीक्षण अभियंता (सिविल), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली, ने दिनांक 30-6-2002 (अपराह्न) से अधीक्षण अभियंता का पद भार त्याग दिया है।

राजीव शर्मा, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 24 दिसम्बर 2002

सं. ए-12012/5/2001-स्था. -1—राष्ट्रपति इस मंत्रालय की दिनांक 12-11-2001 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में श्री जी० एस० बिंद्रा और सुश्री के० दक्षयाणी, निजी सचिव के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्ति की अवधि 28-2-2003 तक अथवा नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

एन० सी० कौशिक, अवर सचिव

दिनांक 16 जनवरी 2003

सं. ए-12026/2/2002-स्था० I—राष्ट्रपति, कानून लोक शिकायत और पेशा मंत्रालय, कानून और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-12-2002 के कार्यालय ज्ञापन सं० 5/5/2001-सी एस-II द्वारा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव ग्रेड (प्रधान निजी सचिव के रूप में पदनामित) की 1998 की चयन सूची (क्रम सं० 33/98) में नाम शामिल किए जाने के फलस्वरूप इस समय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के रूप में कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव श्री डी० एस० बजाज को तत्काल प्रभाव से 10,000-325-15,200 रु० के वेतनमान में इसी मंत्रालय में नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव ग्रेड में प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एन० सी० कौशिक, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2003

सं० ए० 32013/7/2000-स्था II—राष्ट्रपति, श्री एस० सदानंद बाबू को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली, में दिनांक 8-1-2003 (पूर्वाह्न) से और आगामी आदेशों तक कार्यकारी अभियंता (सिविल) के पद पर वेतन मान रु० 10000-325-15200 में नियुक्त करते हैं।

भारत भूषण जैन, अवर सचिव

सं० ए० 32013/7/2000-स्था II—राष्ट्रपति, श्री वा० वी० प्रसाद को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली में दिनांक 05-12-2002 (अपराह्न) से और आगामी आदेशों तक कार्यकारी अभियंता (सिविल) के पद पर वेतनमान रु० 10000-325-15200 में नियुक्त करते हैं।

भारत भूषण जैन, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 जनवरी 2003

सं० 2/2003-मि०सं०ए-12025/1/2000-प्रशा०-1—राष्ट्रपति, अधोलिखित को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में केन्द्रीय विद्युत अभियान्तिकी (समूह क) सेवा के सहायक निदेशक (ग्रेड एक)/सहायक अधिशासी अभियंता के ग्रेड में उनके नाम के सामने अंकित दिनांक से, अगले आदेशों तक रुहण नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	दिनांक
1	श्री सुदेश कुमार	08-10-2002 (अप०)
2	श्री रवि प्रकाश प्रधान	11-10-2002 (पूर्वा०)
3	श्री राठौर जगदीश खोमा	18-10-2002 (पूर्वा०)
4	श्री पीयूष जोशी	11-10-2002 (पूर्वा०)
5	श्री योगेन्द्र कुमार स्वर्णकार	21-10-2002 (पूर्वा०)
6	श्री पंकज कुमार गुप्ता	11-11-2002 (पूर्वा०)
7	श्री टी वेंकटेश्वरलू	18-11-2002 (पूर्वा०)
8	श्री लालरीणसांगा	18-11-2002 (पूर्वा०)
9	श्री राजीव कुमार	22-11-2000 (पूर्वा०)
10	श्री विक्रम सिंह	27-11-2002 (पूर्वा०)
11	श्रीमती अनिता गेहलोत (विवाह पूर्व नाम कुमारी अनिता सौनारा)	17-12-2002 (पूर्वा०)

2. उपरलिखित अधिकारोगण उनके नाम के सामने अंकित नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।

विकास चन्द्र काजला, अवर सचिव

दिनांक 14 जनवरी 2003

सं० 4/2003-मि० सं० ए-38012/1/2002-प्रश्ना० 1—
अधिवर्षिता को आय प्राप्त होने पर श्री बी० के० अग्रवाल,
सदस्य (जन-विद्युत), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एवं पदेन
अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार व केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी
(समूह-क) सेवा के अधिकारी, भारत सरकार की सेवा से 31
दिसम्बर 2002 के आराह्ण से त्याग-निवृत्त हो गए हैं।

विकास चन्द्र काजला, अवर सचिव

दिनांक 15 जनवरी 2003

सं० 5/2003-मि० सं० ए-35018/4/98-प्रश्ना० 1—
श्री टी० जी० श्रीनिवासन, भारतीय लेखा-परीक्षा और
लेखा सेवा के एक अधिकारी ने सदस्य (आर्थिक और
वाणिज्यिक) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का पदभार 01-01-
2003 के आराह्ण से त्याग दिया है।

विकास चन्द्र काजला, अवर सचिव

आचार्यपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 06 जनवरी 2003

सं० 2/6/99-प्रश्ना०—राष्ट्रपति द्वारा वर्तमान में डंजी
क्यूए/टीडब्ल्यूपी, रक्षा मंत्रालय में अनुभवा अधिकारी के रूप में
कार्यरत श्री जी० सिगरावेलू को 6500-200-10500/- रु०
के वेतनमान में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (आचार्यपरिक ऊर्जा
स्रोत) (श्री एम० कण्णप्पन) के निजी स्टाफ में 2 जनवरी,
2003 के आराह्ण से सहायक निजी सचिव के रूप में नियुक्त
किया जाता है।

2. श्री जी० सिगरावेलू की सहायक निजी सचिव के रूप
में नियुक्ति अस्थायी और को-टर्मिनस आधार पर की जाती
है। उनको यह नियुक्ति राज्यमंत्री (आचार्यपरिक ऊर्जा स्रोत)
की कार्यवधि तक अथवा माननीय मंत्री की जब तक उनकी
सेवाओं की आवश्यकता है, जो भी पहले हो, तक के लिए है।

3. श्री जी० सिगरावेलू ने 02-01-2003 (आराह्ण)
से राज्यमंत्री (आचार्यपरिक ऊर्जा स्रोत) के सहायक निजी
सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है।

जे० मजूमदार, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी 2003

सं० ए-42012/2/2000-भा० सू० से० (खंड-2)—
राष्ट्रपति, समय-समय पर यथावशेषता भारतीय सूचना सेवा
(समूह 'क') नियम, 1987 के नियम 4 के उप-नियम 5 द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय दिल्ली उच्च
न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका सं० 2712/2001 तथा
2867/2001 में दिनांक 7-2-2002 को उनके द्वारा दिए गए
निर्णय के तहत यथापुष्टित माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधि-
करण, नई दिल्ली की प्रधान पीठ के ओ० ए० सं० 2316/96
और 2174/96 के दिनांक 22-3-2000 और 19-4-2000
के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय मॉनीटरिंग सेवा,
आकाशवाणी नई दिल्ली में विदेशी भाषा मॉनीटर (अरबी)
तथा विदेशी भाषा मॉनीटर (तिब्बती) के रूप में
कार्यरत क्रमशः श्री ओवेदुर रहमान तथा श्री सोनम थारगे
को दिनांक 4-9-1992 से 2200-4000 रुपए के
वेतनमान (संशोधन-पूर्व) में भारतीय सूचना सेवा समूह 'क'
की कनिष्ठ श्रेणी में स्थानापन्न आधार पर नियुक्त करते हैं।
उनको नियुक्ति दिनांक 8-7-2002 की अधिसूची सं० जी०एस०
आर० 478 (ई) द्वारा भारतीय सूचना सेवा, समूह 'क' की
कनिष्ठ श्रेणी में केन्द्रीय मॉनीटरिंग सेवा, आकाशवाणी, नई
दिल्ली में विदेशी भाषा मॉनीटर के दो पदों पर की जाती है।

2. श्री ओवेदुर रहमान तथा श्री सोनम थारगे भारतीय
सूचना सेवा, समूह 'क' की कनिष्ठ श्रेणी में उनकी नियुक्ति से
पूर्व उनके द्वारा धारित विदेशी भाषा मॉनीटर के सम्मिलित
पद पर कार्य करते रहेंगे।

जी० एस० पुण्डेर, अवर सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 2003

सं० ए-19011/7/2002-प्रश्ना० I—राष्ट्रपति श्री ए०
बी० रिह, आई०डी०ई०एस० (85) को दिनांक 29 नवम्बर,
2002 के पूर्वाह्ण से निदेशक के रूप में, पांच वर्षों की
सामान्यावधि अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो,
नियुक्त करते हैं।

एम० सी० मित्तल, उप सचिव

सं० ए-19011/8/2002-प्रश्ना० I—राष्ट्रपति श्री डी०
एस० पूनिया, भा० प्र० से० (मणिपुर/त्रिपुरा : 78) को श्रम
मंत्रालय में दिनांक 26 दिसम्बर, 2002 के पूर्वाह्ण से संयुक्त
सचिव के रूप में, पांच वर्षों की सामान्यावधि अथवा अगले
आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

एम० सी० मित्तल, उप सचिव

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 16th January 2003

No. A-19014/2/98-Ad. I.—Consequent upon completion of her tenure at the Centre, Ms. Sunita Chhibba, IES (82) has relinquished the charge of the post of Director, Cabinet Secretariat with effect from the afternoon of 15th January, 2003.

SUNIL MISHRA, Dy. Secy.

No. A-19013/1/2002--Ad. I.—The President is pleased to appoint Shri Faquir Chand, CSS, presently Deputy Secretary (in-situ), as Deputy Secretary in the Directorate of Public Grievances (DPG), Cabinet Secretariat against a regular vacancy of deputy Secretary with effect from the forenoon of 9th January, 2003 for a tenure of 7 years of until further orders, whichever event takes place earlier. The tenure of 7 years will count from 18th April, 2002 i.e. his date of appointment as Deputy Secretary (in-situ) in Cabinet Secretariat.

SUNIL MISHRA, Dy. Secy.

MINISTRY OF LAW & JUSTICE
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 26th December 2002

No. A-38012/5/2002--Admn. IV (LA).—It is notified with profound grief that Sh. A.C. Verma, Deputy Legal Adviser (Indian Legal Service) and a Group 'A' Officer, in the Ministry of Law & Justice expired on 23.12.2002(AN).

V. ANANTHAKRISHNAN, Dy. Secy.

The 1st January 2003

No. 11011/2/99--Admn. IV (LA).—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 31/72002-EO(MM-I) dated 09.12.2002, the President is pleased to appoint Shri Yashwant Singh, Under Secretary of CSS cadre of Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce as Under Secretary in CSS cadre of the Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs at Law Commission w.e.f. the afternoon of 31st December 2002.

V. ANANTHAKRISHNAN, Dy. Secy.

The 7th January 2003

No. A-32014/4/99--Admn. IV (LA).—On expiry of the term of ad-hoc appointments the following persons are reverted to the post of Assistants w.e.f. 16.12.2002 (A.N.).

Name	Place
S/Shri	
1. A.K. Ghosh	Department of Legal Affairs, Branch Sectt. Mumbai.
2. Kanwarjeet Singh	Department of Legal Affairs, Main Sectt. New Delhi.

1-432 GI/2002

2. The President is pleased to appoint the above said Assistants (CSS) in the Cadre of Ministry of Law & Justice as Section Officers in the stations indicated against their names for a period of 6 months w.e.f. 18-12-2002 or till availability of vacancies in the grade, whichever is earlier.

3. The ad-hoc appointment will not bestow on them any claim for regular appointment whatsoever to the Section Officer's Grade of the CSS nor will the services rendered by them count for the purpose of seniority in the grade or for his promotion to the next higher grade.

V. ANANTHAKRISHNAN, Dy. Secy.

The 8th January 2003

No. A-32013/2/98--Admn. IV (LA).—In continuation of this Department's Notification of even number dated 28.06.2002, the Competent Authority is pleased to extend the appointment of Shri A.K. Thakur, a regular Principal Private Secretary of CSSS Cadre of Ministry of Home Affairs as Senior Principal Private Secretary on ad-hoc basis against a regular vacancy in the Ministry of Law for a period up to 30-06-2003 or till a regular incumbent becomes available, whichever is earlier.

2. The above said ad-hoc appointment will not bestow on him any claim for regular promotion to the grade of Sr. PPS nor will the service rendered by him on ad-hoc basis will count for the purpose of seniority in the grade or for his promotion to the next higher grade.

V. ANANTHAKRISHNAN, Dy. Secy.

The 10th January 2003

No. A-32014/1/95--Admn. IV (LA).—On the expiry of the term of ad-hoc appointment as Private Secretary (Grade A & B merged of CSSS), the following Private Secretaries are reverted to the post of Personal Assistants in the CSSS Cadre of the Ministry of Law & Justice w.e.f. the afternoon of 04.01.2003 :—

1. Smt. S. Girija Main Secretariat, Legal Affairs
2. Shri Raghubir Singh —do—

2. The President is pleased to appoint above said officials as Private Secretaries (Grade A & B merged of CSSS) on ad-hoc basis, in the Ministry of Law & Justice for a period of six months w.e.f. 07.01.2003.

3. The ad-hoc appointment will not bestow on them any claim whatsoever for regular appointment to the grade of Private Secretaries of CSSS nor will the services so rendered by them count for the purpose of seniority in the grade for promotion to the higher grade.

V. ANANTHAKRISHNAN, Dy. Secy.

New Delhi-110 011, the 3rd January 2003

No. K. 13020/4/2002-US. II.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 100-A of the Constitution of Jammu and Kashmir, the President is pleased to appoint (1) Shri Permod Kohli and (2) Shri Yash Paul Nargotra, to be Additional Judges of the High Court of Jammu & Kashmir, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the date they assume charge of their respective office.

DURGADAS GUPTA, Jt. Secy.

The 16th January 2003

No. K. 13030/3/2002-US. II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Lal Chand Bhadoo, to be a Judge of the Chhattisgarh High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

DURGADAS GUPTA, Jt. Secy.

New Delhi-110011, the 20th December 2002

No. K. 13012/1/2002-US. II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (1) Shri Prakash Krishna, (2) Shri Rajes Kumar, (3) Shri Singhat Ullah Khan, (4) Shri Amar Nath Varma, (5) Shri Devendra Pratap Singh, (6) Shri Abdul Mateen, and (7) Shri Vimlesh Kumar Shukla, to be Judges of the Allahabad High Court, in that order of seniority, with effect from the date they assume charge of their respective office.

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (1) Shri Ghanshyam Dass, (2) Shri Devendra Prasad Gupta, (3) Shri Radhey Shyam Tripathi, (4) Shri Mukteshwar Prasad, (5) Shri Umeshwar Pandey, and (6) Shri Kailash Nath Ojha, to be Additional Judges of the Allahabad High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the date they assume charge of their respective office.

K. GURTU, Director (Justice).

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 20th January 2003

No. I-14012/18/97-IPS. IV.—In this Ministry's notification of even number dated the 20th April 1998, the appointment of the following candidates to Indian Police Service on the basis of Civil Services Examination, 1996, was made 'Provisional'.

S. No.	Name of the candidate	Cadre	Remarks
1	2	3	4
	S/Shri		
1.	Devendra Singh Chauhan	Andhra Pradesh	
2.	Sanjay Kumar Jain	Andhra Pradesh	

1	2	3	4
3.	Vijay Kumar	Andhra Pradesh	
4.	Yaram Nagi Reddy	Andhra Pradesh	
5.	Punit Arora	AGMU	
6.	Binod Kumar	Assam-Meghalaya	
7.	Jalli Ajay Kumar	Assam-Meghalaya	
8.	Surender Singh Yadav	Assam-Meghalaya	
9.	Ajitabh Kumar	Bihar	
10.	K. C. Surendra Babu	Bihar	
11.	Jaideep Singh	Chhatisgarh	
12.	Anupam Singh Gahlaut	Gujarat	
13.	Khursheed Ahmed	Gujarat	
14.	Sanjay Kumar	Haryana	
15.	Anand Pratap Singh	Himachal Pradesh	
16.	Peram Lakshmipathi	Himachal Pradesh	
17.	Alok Kumar	Jammu-Kashmir	
18.	Garib Dass	Jammu-Kashmir	
19.	Ashish Batra	Jharkhand	
20.	T. Kandasamy	Jharkhand	
21.	M. Najundaswami	Karnataka	
22.	S. Murugan	Karnataka	
23.	Balram Kumar Upadhyay	Kerala	
24.	Gugulothu Lakshman	Kerala	
25.	Makrand Deouskar	Madhya Pradesh	
26.	Solomon Yash Kumar Minz	Madhya Pradesh	
27.	Umesh Joga	Madhya Pradesh	
28.	Datta Sreenivasa Varma	Madhya Pradesh	
29.	Abdur Rahman	Maharashtra	
30.	Mekala Suresh Kumar	Maharashtra	
31.	Saurabh Tripathi	Manipur-Tripura	
32.	Janardan Singh	Nagaland	
33.	Asheet Kumar Panigrahi	Orissa	
34.	Pavan Kumar Rai	Punjab	
35.	S. Sengathir	Rajasthan	
36.	Vijay Kumar Singh	Rajasthan	
37.	Vishal Bansal	Rajasthan	
38.	Ms. Karuna Kesharwani	Rajasthan	Since expired
39.	Maheshwar Dayal	Tamil Nadu	
40.	Ayush Mani Tiwari	Tamil Nadu	
41.	Amit Kumar Sinha	Uttaranchal	
42.	Sanjay Kumar Gunjal	Uttaranchal	
43.	V. Murugesan	Uttaranchal	

1	2	3	4
44.	Naveen Arora	Uttar Pradesh	
45.	Neelesh Kumar	Uttar Pradesh	
46.	Mohit Agarwal	Uttar Pradesh	
47.	Raghuhir Lal	Uttar Pradesh	
48.	Ganji Anil Srinivas	West Bengal	
49.	K. Jayaraman	West Bengal	
50.	Dr. R. Rajasekaran	West Bengal	
51.	Supratim Sarkar	West Bengal	

2. The appointment of abovementioned officers to Indian Police Service is hereby made unconditional.

J. B. KAUSHISH, Desk Officer

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES
& PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)
TRAINING DIVISION

New Delhi-110 067, the 13th January 2003

No. 13019/13/2002-Academy (Desk)—Consequent upon premature repatriation to her parent cadre Smt. Gita Mishra, IRPS (83) has relinquished the charge of office of Deputy Director (Senior) in Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie w.e.f. 16th December 2002 (afternoon).

MANISHA BHATNAGAR, Desk Officer

The 17th January 2003

No. 13019/5/2000-Academy (Desk)—Consequent upon premature repatriation to his parent cadre Shri Ajoy Chaudhuri, IAS (KL : 77) has relinquished the charge of office of Professor of Public Administration in Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie w.e.f. 28th December 2002 (afternoon).

MANISHA BHATNAGAR, Desk Officer

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 18th November 2002

No. 47/PA-II/2002—The undermentioned officers holding substantive posts in the Grade of Principal Private Secretary in the Stenographer's cadre of Indian Foreign Service, Branch 'B' had been approved for Ad-hoc officiating promotion to the upgraded posts of Senior Principal Private Secretary Group 'A' Stenographers Cadre of the Indian Foreign Service Branch 'B' in the scale of Rs. 12,000-375-16,500. It has been decided to extend the period of ad-hoc appointment of the following Principal Secretaries against the posts of Senior Principal Private

Secretary for a period of 3 months beyond 30th September, 2002 or till regular promotions are effected whichever is earlier on the same terms and conditions offered to them :—

Sl. No.	Name	Mission where stationed	Date from which officiating as ad-hoc Sr. Principal Secretary.
S/Shri			
1.	Dalip Singh	E/I, Antananarivo	07.12.2000
2.	K. L. Sachdeva	Headquarters	07.12.2000
3.	R. C. Joshi	PMI, New York	07.12.2000
4.	Mrs. Chander Gilani	E/I, Washington	07.12.2000
5.	B. S. Mukhi	E/I, Caracas	07.12.2000
6.	R. S. Arora	Headquarters	07.12.2000
7.	S. K. Nangia	CGI, New York	07.12.2000
8.	J. K. Khurana	Headquarters	07.12.2000
9.	Balbir Chand Sharma	E/I Brussels	07.12.2000

SANJIV RANJAN, Dy. Secy. (FSP)

The 27th November 2002

CORRIGENDUM

No. 48/PA-II/02—In the Notification No. 36/PA-II/02 dated 17th October 2002 the name of Shri Bimal Saigal appearing at S. No. 1 may be read as Shri Bimal Saigal instead of Shri Bimal Sehgal.

SANJIV RANJAN, Dy. Secy. (FSP)

New Delhi, the 14th January 2003

No. D. III/460/CF-27/2001—The President of India is pleased to recognise the appointment of Ms. Dial Kaur as Consul of the Republic of Singapore in Mumbai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Ms. Dial Kaur comprises the States of Maharashtra, Gujarat and Goa.

PRABHAT KUMAR, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY
AFFAIRS
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 18th December 2002

No. 39 (F. No. A. 19011/24/2002-Ad. I)—The President is pleased to appoint Shri R. K. Chandra, IC & CES (1967),

as Member, Central Board of Excise & Customs and ex-officio Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Finance and Company Affairs, Department of Revenue, with effect from 01 November 2002 (FN) and until further orders.

PREETI PANT, Under Secy.

No. 100* (F. No. A 19011/25/2002-Ad. I)—The President is pleased to appoint Dr. M. G. Venugopalan, IC & CES (1967), as Member, Central Board of Excise & Customs and ex-officio Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Finance and Company Affairs, Department of Revenue, with effect from 16th December 2002 (AN) and until further orders.

PREETI PANT, Under Secy.

New Delhi, the 31st December 2002

No. of 2002.(F. No. A. 32014/2/2002-Ad. IA.)—In pursuance of the Cadre Administration Section O.M. No. A. 12024/1/2002-CAS dated 5.12.2002, the President is pleased to appoint the following Personal Assistants of the Central Secretariat Stenographers Service as Private Secretaries on ad-hoc basis from 11-12-2002 (FN) for a period of six months in the pay scale of Rs. 6500-10500/- in the Ministry of Finance, Department of Revenue:

S. No. Name

(S/Shri/Ms)

1. Vinod Kumar
2. Niranjan Singh Verma
3. N. S. Sharma

2. Ad-hoc promotion of the above-mentioned officials will not bestow on them any claim for regular appointment in the Grade of Private Secretary of the CSSS and the service rendered by them on ad-hoc basis will not count for the purpose of seniority in the grade of eligibility for promotion to the next higher grade and the Government reserve the right to cancel at any time the ad-hoc promotion and revert the officials to the post from which they were promoted.

R.K. MALHOTRA, Under Secy.

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 15th January 2003

INCOME TAX ESTABLISHMENT

F. No. A-32012/7/2001-Ad. VI.— In supersession of this Department's Notification No. 2 (F. No. A-32012/7/2001-Ad. VI). dated 01.02.2002 Shri Suman Gupta, Assistant Commissioner of Income Tax (90509), Delhi is hereby appointed to officiate on regular basis as Deputy Commissioner of Income Tax (Senior Scale) in the pay

scale of Rs. 10,000-325-15,200 with effect from 1st October, 1994.

P. C. BHATT, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 17th January 2003

F. No. 2/15/2001-COIN. I.—The President is pleased to extend the appointment of Shri M.J.Ray, Deputy Chief Assayer, India Government Mint, Hyderabad to the post of Chief Assayer in the India Government Mint on adhoc basis in the pay scale of Rs. 12000-375-16500, upto 30-6-2003 or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

2. The adhoc appointment will not confer on the officer any right for regular appointment or seniority.

APARAJITA CHOWDHURY, Under Secy.

(BANKING DIVISION)

New Delhi, the 10th January 2003

F. No. 18/2/95-DRT.—Consequent upon attaining the age of superannuation Sh. C.K. Solanki Presiding Officer of Debts Recovery Tribunal, Jabalpur will retire on 13-1-2003(A.N.). In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 4 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 Sh. A.S. Choudhary, Presiding Officer of Debts Recovery Tribunal, Allahabad is authorized to look after the charge of the post of Presiding Officer of DRT, Jabalpur in addition to his own duties with effect from 13.1.2003 (A.N.) without any additional remuneration and until further orders.

D. P. BHARDWAJ, Under Secy.

The 14th January 2003

F. No. 21/5/00-DRT.—The President is pleased to extend the deputation period of Shri Jagdish Swaroop, Recovery Officer in the office of Debts Recovery Tribunal, Ahmedabad on deputation basis in the pay scale of Rs. 10,000-15,200/- for a period of one year w.e.f. 9.2.2003 (F.N.) or until further orders, whichever is earlier.

D. P. BHARDWAJ, Under Secy.

No. A-19011/214/2000-Estt.—The President is pleased to appoint Shri P.M. Sirajuddin, an Officer of the Central Secretariat Service (CSS), as Joint Secretary in the Banking and Insurance Division of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance and Company Affairs in the pay scale of Rs. 18400-22400/- by upgrading the post of Director, presently held by him in Banking and Insurance Division of the Department of Economic Affairs, as a

measure personal to him, with effect from the forenoon of 8th January, 2003 till the date of his superannuation on 31.12.2004 or until further orders, whichever, event takes place earlier.

D.P. BHARDWAJ Under Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 21st January 2003

No. A-12025/1/2001-EG—The President is pleased to appoint the following Officers to the Junior Time Scale of Indian Audit and Accounts Service with effect from the dates noted against each :—

S. No.	Name	with effect from
1	2	3
1.	Ms. Rashmi Jain	21-4-1997
2.	K. Vijaya Kumaran	21-4-1997
3.	D.K. Sekar	20.10.1997
4.	S. Divakaran Pillai	21.4.1997
5.	Akhilish Kumar Kaushik	21.4.1997
6.	Puran Kumar Verma	21.4.1997
7.	Anil Kumar Sobti	21.4.1997
8.	Prabhakar Das Mahale	21.4.1997
9.	Ms. G. Sudharmine	21.4.1997
10.	P. K. Monga	21.4.1997
11.	Rakesh Gupta	21.4.1997
12.	E. Srinivasan	21.4.1997
13.	Raj Kumar Agrawal	12.5.1997
14.	S. Vasudevan	21.4.1997
15.	Ms. Reena Garg	21.4.1997
16.	S. Suresh Kumar	21.4.1997
17.	Brij Mohan	21.4.1997
18.	N. Karunakaran	21.4.1997
19.	Harpal Singh	21.4.1997
20.	Chandra Mohan	21.4.1997
21.	P.N. Seshadri	21.4.1997
22.	Devender Kumar Gupta	21.4.1997
23.	Ms. M. V. Rajeswari	21.4.1997
24.	P.P. Mohanan	21.4.1997
25.	T.S. Shivappa	21.4.1997
26.	Ms. Sheela Madhukar Jog	21.4.1997
27.	Arabinda Das	21.4.1997
28.	Jeetha Ram Rinwa	21.4.1997
29.	S. Raghavan	21.4.1997
30.	Keshab Charan Behera	21.4.1997

1	2	3
31.	N. Sivasankara Pillai	21.4.1997
32.	Devinder Kumar	21.4.1997
33.	W. Jebaneson Arulsingh	21.4.1997
34.	Aditya Kumar Sexna	21.4.1997
35.	Teresa Joseph	21.4.1997
36.	Karan Singh	21.4.1997
37.	Prakash Ambadas Ratnaparkhi	21.4.1997
38.	Dwarka Prasad Yadav	21.4.1997
39.	Surya Parkash Mangal	21.4.1997
40.	V.K. Girijavallabhan	21.4.1997
41.	P.V. Ravi	21.4.1997
42.	Chander Sain Sharma	21.4.1997
43.	Rajesh Kumar Bhatti	21.4.1997
44.	Aswini Kumar Mishra	21.4.1997
45.	Ms. P. Radha Devi	21.4.1997
46.	Anjan Kumar Aich	21.4.1997

2. All the 46 Officers are working in the Offices under the C&AG of India.

MAHENDRA KUMAR, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 15th January 2003

No. 2/2/2002/HRD-I/7384.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee held on 16.12.2002 in this Directorate and on the approval of the competent authority, the following officers holding the post of Section Head/Senior Investigation in the Director General of Foreign Trade Organisation are promoted to the post of Foreign Trade Development Officer in the Pay Scale Rs. 6500-200-10500 with effect from the date of joining to the post in the place of posting indicated in this Directorate Office Order No. 03/2003 dated 15.01.2003 :

Sl. No.	Name of Officer
1	2
1.	Shri Y. N. Sharma
2.	Shri K. M. Motwani
3.	Shri Sushil Kumar Sikdar
4.	Smt. Argentina Thaba

1	2
5.	Shri Find Kordar Shabong
6.	Shri Bishnuram Khaklary
7.	Smt. Suniti Mondal
8.	Shri Pulin Krishna Joddar
9.	Shri Nirananda Dewri
10.	Smt. Basanti Das
11.	Shri Aniya Kumar Barat
12.	Smt. Jharna Ghosh

A.K.M. CHAKANKAR, Jt. Director General
of Foreign Trade

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY & PROMOTION

New Delhi, the 15th January 2003

No. A-12027/5/94-Expl.—The President is pleased to appoint Shri R.H. Bhalekar, Joint Chief Controller of Explosives in the Department of Explosives to officiate as Chief Controller of Explosives in that Department on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 18400—22400 for a further period of six months with effect from 26.12.2002 or till the disposal of SLP in the Supreme Court, whichever is earlier.

The above appointment is made purely on ad-hoc basis and shall not confer any right on him to continue indefinitely or for seniority in the grade on a future date. Government reserves the right to terminate this ad-hoc appointment any time without assigning any reasons or giving notice etc. The appointment would be subject to outcome of the S.L.P. 8828/2000 (UOI Vs. Shri R.H. Bhalekar) pending in the Supreme Court and other judicial orders.

SANJAY GARG, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 27th December 2002

No. A-12011/27/98-Estt. The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Ms. Swadesh Kumari Aggarwal as Assistant Library & Information Officer in the Ministry of Petroleum & Natural Gas in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- from 1.11.2002 to 28.2.2003 or until further orders.

S.S. KEMWAL, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS)

New Delhi, the 10th January 2003

No. A-32011/3/2002-Estt. The President is pleased to appoint Shri Jasbir Singh, a regular additional Industrial Adviser of this Department, to the post of Industrial Adviser in the scale of Pay of Rs. 16,400-450-20,000/- w.e.f. the 1st April, 2002 and until further orders.

R.P. VASISHTHA, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 3rd January 2003

No. 11(40)/2002-Estt. (). In continuation of this Ministry's notification No. 11(12)/2002-Estt. dt. nil, the President is pleased to extend the period of appointment of the following Permanent Assistants in the CSS Cadre of the Ministry of Steel as Section Officer on ad-hoc basis in the same service and cadre for the period mentioned against each or till regular, Section Officers become available whichever is earlier.

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Shri Sheo Nath Singh | 1.1.2003 to 31.3.2003 |
| 2. Shri R.S. Rao | 1.1.2003 to 31.3.2003 |
| 3. Shri Manoj Kumar Singh | 7.3.2003 to 31.3.2003 |

2. The above officers will not have any claim for seniority of regular promotion consequent on their ad-hoc appointment.

BABOO RAM, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 17th January 2003

No. A-12015/2/2000-E.I.—The President is pleased to appoint Shri M.K. Bhardwaj of Select List Year 1998 as Principal Private Secretary in the pay scale of Rs. 10,000—15,200/- on regular basis in the Department of Food & Public Distribution w.e.f. the forenoon of 10th December, 2002.

M.L. MALHOTRA, Under Secy.

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

New Delhi, the 15th January 2003

F. No. A-11011/4/2002-Estt.—The President is pleased to appoint Smt. Indrani Kaushal [IES : 95], as Deputy Director (EIR) in the Department of Consumer Affairs in

the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 with effect from the afternoon of 2nd January, 2003 and until further orders.

S.K. NAYAK, Under Secy.

F. No. A-12011/33/2002-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Wajahat Habibullah, IAS [JK : 68], as Secretary in the Department of Consumer Affairs in the scale of pay of Rs. 26000/- (fixed) with effect from the forenoon of 15th January, 2003 on his relinquishing charge of the post of Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration.

S. K. NAYAK, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 8th January 2003

No. A-11013/1/2002-Admn. I (A).—The Competent Authority is pleased to appoint the following 3 (three) permanent Personal Assistants of CSSS Cadre of the Ministry of Science and Technology as Officer on Special Duty in the scale of pay of Rs. 6500-200-10,500/- on ad-hoc basis in the Department of Science and Technology for a period of six months with effect from 8.01.2003 or till further orders, whichever event takes place earlier :

S. No.	Name
(i)	Shri T.P.S. Sehrawat
(ii)	Smt. Madhu Surya
(iii)	Shri Jayaraman K.

S. C. CHAWLA, Dy. Secy.

The 10th January 2003

No. A 01/15/2001-Amn. I (A).—The President is pleased to appoint the following Scientists 'F' as Scientists 'G' on their in-situ promotion under the Flexible Complementing Scheme in the scale of pay of Rs. 18400-50-22400 in the Department of Science & Technology with effect from 1st January, 2003 and until further orders.

1. Shri I. B. Singh
2. Smt. C. P. Sehgal

S. C. CHAWLA, Dy. Secy.

The 13th January 2003

No. A-32013/03/2002-Admn. I (A).—The Competent Authority is pleased to appoint Shri Ravinder, Junior Technical Assistant in Department of Science and Technology as Junior Analyst (Technical) on regular basis

in the scale of pay of Rs. 6500-200-10,500/- in the Department of Science and Technology with effect from 10th January, 2003 and until further orders.

S. C. CHAWLA, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY)

New Delhi-110 003, the 17th January 2003

No. A-12011/01/96-E. II.—In continuation of this Department's Notification of even number dated 27th February, 2002, the President is pleased to extend the term of appointment of Dr. (Mrs.) Manju Sharma as Secretary, Department of Biotechnology for a further period of one year beyond the age of 63 years i.e. upto 29.02.2004 or until further orders whichever is earlier.

S. C. AGRAWAL, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110003, the 30th December 2002

F. No. 17013/13/2000-IFS. II.—In exercise of the provisions contained in Sub-Regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the Union Public Service Commission on 23rd December, 2002 has approved the Select List for the year 2002 containing the name of Shri Kivito Shohé (ST) (DOB: 16.09.1953) State Forest Service Officer of Nagaland Cadre, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 6th September, 2002 for filling up promotion vacancy in the Nagaland Cadre of the Indian Forest Service.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, the 13th December 2002

No. A. 32013/2/97-Estt. I.—Consequent on inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade of Central Secretariat Service for the year 1995 against Seniority Quota and upon reporting for duty in this Ministry on repatriation from C.A.T., Allahabad (on deputation), the President is pleased to appoint Shri Ashish Kumar, Assistant in the Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service in the Ministry of Health & Family Welfare with effect from 18.11.2002 (FN).

DR. ANIL KUMAR, Under Secy.

New Delhi-110011, The 8th January 2003

No. C. 14011/7/2000-CHS. I.—Consequent on acceptance of his resignation Dr. R.R.K. Kakkar, is deemed to have relinquished the charge of the post of Chief Medical

Officer of the Central Health Service under Government of National Capital Territory of Delhi with effect from 13.5.2002.

The period from 8.7.97 onwards has been treated as Dies-Non.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 14th January 2003

No. A. 12025/144/99-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ashok Kumar Sharma to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with effect from forenoon of the 8th May, 2002 until further orders Dr. Ashok Kumar Sharma is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme Delhi with effect from the same date.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A. 12025/8/2001-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Vinay Kumar Mishra to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with effect from afternoon of the 12th February, 2002 until further orders Dr. Vinay Kumar Mishra is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Meerut with effect from the same date.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 16th January 2003

No. A. 12025/35/99-CHS. I.—Consequent upon acceptance of his registration Dr. Naresh Kumar Aggarwal is deemed to have relinquished the charge of the post of Medical Officer of Central Health Service under Central Government Health Scheme, New Delhi on the forenoon of 6.3.2002.

The period from 28.12.2001 till 6.3.2002 (forenoon) has been treated as Dies-Non.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A. 39012/7/99-CHS. I.—Consequent upon acceptance of his resignation Dr. Pankaj Kumar, Senior Medical Officer is deemed to have relinquished the charge of the post of Senior Medical Officer of Central Health Service under Government of National Capital Territory of Delhi on the forenoon of 12.12.2000.

The period from 10.6.1997 till 12.12.2000 has been treated as Dies-Non.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

(DEPTT. OF ISM & HOMOEOPATHY)

New Delhi, the 26th November 2002

No. Z-28015/1/97-ISM(E.II).—Consequent on inclusion of his name in the Select List of Grade I of CSS (Under Secretary) for the year 1992 vide DOPT's O.M. No. 4/13/2001-CS. I dated 12.08.2002 and 30.10.2002, the president is pleased to appoint Shri Lal Singh, CSL No. 3554 against S. No. 103-A of Select List for 1992, an officer of CSS to the Grade I of that Service (Under Secretary) on a regular basis w.e.f. 01.07.92.

P. N. SAXENA, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 1st January 2003

No. 27-2502/2002-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Mohan Kanda, IAS (AP: 68), Special Secretary and Central Relief Commissioner in the Department of Agriculture & Cooperation, as Secretary in the same Department with effect from the forenoon of 1st January, 2003, until further orders.

SARASWATI PRASAD, Director (Pers.)

New Delhi, the 1st January 2003

No. 27-2509/2003-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Sudhir Mankad, IAS (GJ: 71), as Additional Secretary & Financial Adviser in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation) in the scale of pay of Rs. 22,400-525-24,500/- with effect from the forenoon of 1st January, 2003, until further orders.

K. D. UPRETI, Under Secy.

New Delhi, the 14th January 2003

F. No. 19-309-91-Extn.—The President is pleased to permit Dr. (Smt.) Tara Thomas, Regional Home Economist in the Directorate of Extension to retire voluntarily from the Government service under Rule 56(k) of Fundamental Rules read with Rule 48(1)(a) of CCS(Pension) Rules with effect from the forenoon of 11th December, 2002.

RANI TALREJA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE RESEARCH & EDUCATION)

New Delhi, the 31st December 2002

No. A-19011/11/2001-Estt.—On attaining the age of 60 years, Dr. Panjab Singh, Secretary, Department of Agricultural Research & Education (DARE)/Director

General, Indian Council of Agricultural Research (ICAR) superannuates from service w.e.f. the afternoon of 31st December, 2002.

M. C. CHAND, Under Secy.

The 10th January 2003

No. 3-2/2002-Estt.—The President of India is pleased to appoint Dr. Mangala Rai, Deputy Director General (Crop Science), ICAR, to the post of Secretary, Department of Agricultural Research & Education (DARE) and Director General, Indian Council of Agricultural Research (ICAR) in the pay scale of Rs. 26000/- (fixed) per month w.e.f. the afternoon of 9th January, 2003 until further orders.

M. C. CHAND, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110 003, the 13th January 2003

No. 2(9)/2001-Pers. I.—The President is pleased to appoint Shri Pradeep Kumar Srivastava, IPS (AGMU : 86) as Assistant Controller (Investigation) in the office of Controller of Certifying Authorities, Department of Information Technology on deputation basis, in the scale of pay of Rs. 16400-450-20000 for a period of three years with effect from the forenoon of 30th December, 2002.

R. K. MANCHANDA, Deputy Director

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 31st December 2002

No. 400-52/2002-STG-III.—Shri M. Ramaswamy (Staff No. 70026), an ad-hoc officer of Senior Administrative Grade of Telegraph Traffic Service Group 'A', who was working as General Manager in Tamilnadu Telecom Circle, expired on 30-10-2002.

Dr. VINCENT BARLA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110001, the 9th January 2003

No. 1-7/1998-SPG.—Shri S. B. Bhattacharya, (IPoS-1966), Member (O), Department of Posts, New Delhi has retired on superannuation from Government service w.e.f. 31-12-2002 (AN).

R. S. YADAV, Assistant Director General (SGP)

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110003, the 15th January 2003

No. A-60011/003/2002-VE.—The President is pleased to appoint Shri Satendra Singh, Joint Director General of

Civil Aviation to the post of Director General of Civil Aviation in the Directorate General of Civil Aviation on regular basis in the pay scale of Rs. 22400-525-24500 w.e.f. 14th of January, 2003 (F.N.) and until further orders.

K. K. PANT, Under Secy.

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 27th September 2002

No. A-38020/4/2002-E-II.—Consequent upon attaining the age of superannuation Shri G.S.C. Kartha, Superintending Engineer, Ministry of Road Transport & Highways, New Delhi relinquished the charge of the post of Superintending Engineer w.e.f. 30.06.2002 (AN).

RAJIV SHARMA, Deputy Secy.

New Delhi, the 24th December 2002

No. A-12012/5/2001-E-I.—In continuation of this Ministry's notification of even number dated 12.11.2001, the President is pleased to extend the period of the ad-hoc appointment of Shri G. S. Bindra and Ms. K. Dakshayani, as Private Secretary up to 28.2.2003 or till the regular candidates become available, whichever is earlier.

N. C. KAUSHIK, Under Secy.

The 16th January 2003

No. A-12026/2/02-E-I.—Consequent on inclusion of the name in the Select List of 1998 (SL-33/98) of Private Secretary Grade of CSSS (Designated as Principal Private Secretary) vide Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training O.M. No. 5/5/2001-CS-II dated 10.12.2002, the President is pleased to appoint Shri D. S. Bajaj, Private Secretary of CSSS, presently working as Principal Private Secretary on ad-hoc basis in the Ministry of Road Transport & Highways, as Principal Private Secretary in the Private Secretary Grade of CSSS on regular basis in the same Ministry in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 with immediate effect.

N. C. KAUSHIK, Under Secy.

New Delhi the 15th January 2003

No. A-32013/7/2000-E-II.—The President is pleased to appoint Shri Sadananda Babu Siddappa as Executive Engineer (Civil) in the Ministry of Road Transport and Highways, New Delhi in the pay scale of Rs. 10000-325-15200/- with effect from 08-01-2003 (F.N.) and until further orders.

B. B. JAIN, Under Secy.

No. A-32013/7/2000-E-II.—The President is pleased to appoint Shri Y. V. Prasad as Executive Engineer (Civil) in

the Ministry of Road Transport and Highways, New Delhi in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 05-12-2002 (A.N.) and until further orders.

B.B. JAIN, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 13th January 2003

No. 2/2003 (F. No. A-12025/1/2000-Adm. I).—The President is pleased to appoint the following in the grade of Assistant Director (Grade-I)/Assistant Executive Engineer of the Central Power Engineering (Group-A) Service in the Central Electricity Authority with effect from the dates given against their names, until further orders :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Shri Sudesh Kumar | 08.10.2002 (A.N.) |
| 2. Shri Ravi Prakash Pradhan | 11-10-2002 (F.N.) |
| 3. Shri Rathod Jagdish Khima | 18.10.2002 (F.N.) |
| 4. Shri Piyush Joshi | 21-10-2002 (F.N.) |
| 5. Shri Gogendra Kumar Swarnkar | 21.10.2002 (F.N.) |
| 6. Shri Pankaj Kumar Gupta | 11.11.2002 (F.N.) |
| 7. Shri T. Venkateswarlu | 18.11.2002 (F.N.) |
| 8. Shri Larinsanga | 18.11.2002 (F.N.) |
| 9. Shri Rajeev Kumar | 22.11.2002 (F.N.) |
| 10. Shri Vikram Singh | 27.11.2002 (F.N.) |
| 11. Smt. Anita Gahlot
(nee Km. Anita Songara) | 17.12.2002 (F.N.) |

2. The above-mentioned officers will be on probation for a period of two years with effect from the date of appointment indicated against each.

V. C. KAJLA, Under Secy.

The 14th January 2003

No. 4/2003. F. No. A-38012/1/2000-Adm. I.—Shri B.K. Aggarwal, Member (Hydro) Central Electricity Authority and Ex-Officio Additional Secretary to the Government of India and an officer of the Central Power Engineering (Group A) Service, retired from service under the Government of India in the afternoon of 31st December, 2002 on attaining the age of superannuation.

V. C. KAJLA, Under Secy.

The 15th January 2003

No. 5/2003 (F. No. A-35018/4/98-Adm. I).—Shri T.G. Srinivasan, an officer of the Indian Audit & Accounts Service, relinquished the charge of the post of Member (Economic & Commercial), Central Electricity Authority with effect from the afternoon of 1.1.2003.

V. C. KAJLA, Under Secy.

MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES

New Delhi-3, the 6th January 2003

No. 2/6/99-Adm. I.—The President is pleased to appoint Sh. G. Singaravelu presently working as Section Officer in the DGQA/TWP, Ministry of Defence as Assistant Private Secretary in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- in the personal staff of Minister of State (Independent charge) (Non-Conventional Energy sources) (Sh. M. Kannappan) w.e.f. the afternoon of 2nd Jan., 2003.

2. The appointment of Shri G. Singaravelu as Assistant Private Secretary is temporary and on a co-terminus basis with the term of MOS(NES) or till his service is required by the Hon'ble Minister, whichever is earlier.

3. Sh. G. Singaravelu assumed charge of the post of Assistant Private Secretary to the MOS(NES) w.e.f. 02-01-2003 (AN).

J. MAJUMDAR, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 3rd January 2003

No. A-42012/2/2000-IIS (Vol. II) : In exercise of the powers conferred by sub-rule 5 of Rule 4 of the Indian Information Service (Group 'A') Rules 1987 as amended from time to time, the President is pleased to appoint Shri Obaidur Rehman and Shri Sonam Thargye, at present working as Foreign Language Monitor (Arabic) and Foreign Language Monitor (Tibetan) respectively, Central Language Monitoring Services, All India Radio, New Delhi to officiate in Junior Grade of Indian Information Service Group 'A', with effect from 4.9.1992 in the pay scale of Rs. 2200-4000 (pre-revised), in compliance with orders dated 22-3-2000 and 19-4-2000 of the Hon'ble Principal Bench of Central Administrative Tribunal, New Delhi in OA Nos. 2316/96 and 2174/96, as upheld by the Hon'ble High Court of Delhi vide their order dated 7.2.2002 in CWP Nos. 2712/2001 and 2867/2001. Their appointment is against the two posts of Foreign Language Monitors in CMS, AIR, New Delhi inducted in the Junior Grade of Indian Information Service Group 'A' vide Notification G.S.R. 478(E) dated 8.7.2002.

2. Shri Obaidur Rehman and Shri Sonam Thargye will continue to work against the inducted posts of Foreign Language Monitors held by them prior to their appointment in the Junior Grade of IIS Group 'A'.

G.S. PUNDIR, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 16th January 2003

No. A-19011/7/2002-Admn. I.—The President is pleased to appoint Shri A.V. Singh, IDES (85), as Director in the Ministry of Labour with effect from the forenoon of 29th November 2002 for a normal tenure of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

M.C. MITTAL, Dy. Secy.

No. A-19011/8/2002-Admn. I.—The President is pleased to appoint Shri D.S. Poonia, IAS (MT : 78), as Joint Secretary in the Ministry of Labour with effect from the forenoon of 26th December 2002 for a normal tenure of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

M.C. MITTAL, Dy. Secy.